



सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिकों और दिव्यांग लोगों के लिए मोबाइल फूड वेंडर शहरव्यापी सुपरवाइज़री लाइसेंस के लिए आवेदन करने का अवसर

न्यूयॉर्क सिटी स्वास्थ्य विभाग सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिकों और दिव्यांग लोगों के लिए मोबाइल फूड वेंडर शहरव्यापी सुपरवाइज़री लाइसेंस के आवेदन जारी कर रहा है। एक शहरव्यापी सुपरवाइज़री लाइसेंस आपको एक पूर्ण-टर्म (साल भर) के लिए शहरव्यापी मोबाइल फूड वेंडिंग परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।

यदि आपके पास न्यूयॉर्क सिटी स्वास्थ्य विभाग का वर्तमान, वैध मोबाइल फूड वेंडर लाइसेंस (आईडी बैज) है और आप एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिक हैं या आप दिव्यांग हैं, तो आप इस प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। इस प्रतीक्षा सूची में स्थानों की संख्या सीमित होगी, जो इस क्रम में होंगे:

- समूह 1: दिव्यांगता वाले सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिक
- समूह 2: दिव्यांग लोग (गैर-सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिक)
- समूह 3: बिना दिव्यांगता वाले सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिक

आप केवल एक सुपरवाइज़री लाइसेंस प्रतीक्षा सूची में शामिल हो सकते हैं। यदि आप किसी अन्य सुपरवाइज़री लाइसेंस प्रतीक्षा सूची में हैं और अब इस प्रतीक्षा सूची में आना चाहते हैं क्योंकि आप एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिक हैं या आप दिव्यांग हैं, तो आपको उस अन्य सुपरवाइज़री लाइसेंस प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा जिसमें आप वर्तमान में शामिल हैं। सुपरवाइज़री लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको यह प्रमाण देना होगा कि आप एक सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिक हैं या आप दिव्यांग हैं।

शहरव्यापी सुपरवाइज़री लाइसेंस प्रतीक्षा सूची आवेदन फ़ॉर्म और आवेदन भरने के निर्देश nyc.gov/health/mobilefood पर उपलब्ध हैं। आप 311 पर कॉल भी कर सकते हैं और डाक द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए "mobile food" (मोबाइल फूड) के लिए कह सकते हैं।

प्रतीक्षा सूची के आवेदन ईमेल या डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए और 28 अप्रैल, 2026 तक पोस्टमार्क किए जाने चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, यहाँ जाएँ nyc.gov/health/mobilefood।